

# **DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR**

**SESSION (2024-25)**

## **PERIODIC TEST-2 SYLLABUS**

### **CLASS-VI**

<b>SUBJECT</b>	<b>TOPICS</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>Reading:</b> Unseen Comprehension <b>Writing &amp; Grammar:</b> Dialogue Writing, Story Writing, Conjunctions, Prepositions. <b>Literature:</b> (Prose) The Chair, Neem Baba, Spices that Heal Us, Yoga- A Way of Life <b>Poem:</b> A Friend's Prayer, What a Bird Thought, The Winner
<b>HINDI</b>	पाठ - 7. जलाते चलो, 8. सत्रिया और बिहू नृत्य, 9. मैया में नहिं माखन खायो, 10. परीक्षा   <b>व्याकरण</b> - सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण, काल, मुहावरे   <b>क्रियात्मक कार्य</b> - अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, संवाद लेखन
<b>MATHEMATICS</b>	Ch.4 Data Handling and Presentation Ch.6 Perimeter and Area Ch.7 Fractions
<b>SCIENCE</b>	Ch 8: A Journey through States of Water, Ch 9: Methods of Separation in Everyday Life Ch 10: Living Creatures: Exploring their Characteristics, Ch 11: Nature's Treasure
<b>SOCIAL SCIENCE</b>	Ch. 3 Landforms and Life Ch- 6 The Beginnings of Indian Civilisation Ch-7 India's Cultural Roots Ch- 10 Grassroots Democracy – Part 1 Governance
<b>SANSKRIT</b>	पाठ-११ अपादानकारकम्( पञ्चमी विभक्तिः) पाठ-१२ सम्बन्धकारकम् (षष्ठी विभक्तिः) पाठ १३ अधिकरणकारकम् (सप्तमी विभक्तिः) पाठ-१४ सम्बोधनम् अपठित गद्य
<b>FRENCH</b>	L-6: Le collège Jean Renoir L-7: Une visite aux Galeries Lafayette L-8: Un repas Français L-9: Visitons la maison de Manuel ! (Only Literature part) <b>Compréhension</b> <b>Grammaire :</b> Les nombres ordinaux et cardinaux, Les prépositions, Les verbes en <<re>> et irréguliers Les articles contractés, L'interrogation, Les repas Français, Les articles partitifs, Les verbes en <<tir>>

<b>GUJARATI</b>	<p>૮ - દીપોસ્તવી પર્વ</p> <p>૧૦ - કબૂતરોનું ધૂ ધૂ ધૂ</p> <p>૧૧ - દાનેશ્વરી કર્ણી</p> <p>૧૨ - કાર્ટુનના પિતા-વોલ્ટ ડિઝની</p> <p><b>વ્યાકરણ:</b> સમાનાર્થી શબ્દ, વિરોધી શબ્દ, રૂઢિપ્રયોગના અર્થ, સર્વનામ, જોડણી, વર્ણણ, સંયોજન, વર્ણ વિભાજન, સંખ્યા શબ્દમાં, અંકમાં (૫૧ થી ૧૦૦), અપઠિત ગાયંશ, પઠિત ગાયંશ</p>
<b>COMPUTER SCIENCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Designing web pages using HTML</li> <li>8. Computational Thinking</li> <li>9. Understanding essence of Coding</li> </ul>